



प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## 25.

१६३

भाग 11—खण्ड 3 उपखण्ड—(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केंद्रीय प्राधिकरणों (सब मंत्रालयों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांख्यिक नियमों और सांख्यिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)

भाग 11—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांख्यिक नियम और आदेश

भाग 11—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निर्वलक और महालेखा परीक्षक, सब लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बन्धित और अर्ध नरूप कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 1081

भाग 11—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 7869

भाग 11—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

भाग 11—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिसमें सार्वजनिक निवासों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 6031

भाग 11—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-संस्थापित निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 571

भाग 11—अन्य और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्ज करने वाला मसूदा

# CONTENTS

Page	Page
<b>PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court</b> .. 817	<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules &amp; Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)</b> ..
<b>PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court</b> .. 1085	<b>PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence</b> ..
<b>PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence</b> .. 3	<b>PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.</b> .. 1081
<b>PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence</b> .. 1439	<b>PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs</b> .. 9889
<b>PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations</b> ..	<b>PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners</b> ..
<b>PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations</b> ..	<b>PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies</b> .. 6031
<b>PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills</b> ..	<b>PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies</b> .. 571
<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)</b> ..	<b>PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc both in English and Hindi</b> ..
<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).</b> ..	

भाग I—खण्ड I

[PART I—SECTION 1]

(एक मंत्रालय की छाप) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधित्त नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव-संसाधन विकास मंत्रालय

(मध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2004

सं. एक. 9-7/2002-यू. 3—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा यह घोषणा करती है कि निम्नलिखित संस्थाओं को विनायक मिशन रिसर्च फाउन्डेशन, सलेम (तमिलनाडु) सम-विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से उक्त अधिनियम के उद्देश्य हेतु सम्मिलित किया जाता है :—

- विनायक मिशन किरुपानन्द वरियार इंजीनियरी कालेज, सलेम
- विनायक मिशन कालेज ऑफ फिजियोथेरेपी, सलेम
- विनायक मिशन किरुपानन्द वरियार अर्ट्स एंड साइंस कालेज, सलेम
- विनायक मिशन कालेज ऑफ फार्मसी, सलेम
- अरूपड़ाई ठिडु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पंचनूर, कांचीपुरम

सुनील कुमार, संयुक्त सचिव

सं. एक. 9-7/2004-यू. 3—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा घोषणा करती है कि 'भारती विश्वविद्यालय मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, संगली; तथा भारती विश्वविद्यालय मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, नयी मुम्बई' नामक दो संस्थाओं को भारती विश्वविद्यालय (सम-विश्वविद्यालय), पुणे के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत तीन वर्ष के पश्चात् समीक्षा की शर्त के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से सम्मिलित किया जाता है।

- ये दो नए केन्द्र भारतीय चिकित्सा परिषद्/भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्, जैसा भी मामला हो, की पूर्वानुमति के बिना किसी भी विद्यार्थी को दाखिला नहीं देंगे;
- इस अंतराल के दौरान भारती विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए कितने विद्यार्थी/सामाजिक सूचना में यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि इन संस्थाओं की भारती विश्वविद्यालय में शामिल किया जाना अंतरिम है तथा यह भारतीय चिकित्सा परिषद्/भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के अनुमोदन पर निर्भर होगा; और
- ये संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी उन दिशा-निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन करेंगी जो सम-विश्वविद्यालय पर लागू होंगे।

सुनील कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 19th August 2004

No. F. 9-7/2002-U-3—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission,

hereby declare that the following institutions are included under the ambit of Vinayaka Mission's Research Foundation, Salem, (Tamil Nadu), a Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect :—

- Vinayaka Mission's Kirupananda Variyar Engineering College, Salem.
- Vinayaka Mission's College of Physiotherapy, Salem.

- c) Vinayaka Mission's Kirupananda Variyar Arts and Science College, Salem.
- d) Vinayaka Mission's College of Pharmacy, Salem.
- e) Aarupadai Veedu Institute of Technology, Paiyanoor, Kanchipuram.

SUNIL KUMAR

Jt. Secy.

No. F. 9-7/2004-U.-3—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declare that the two institutions namely Bharati Vidyapeeth's Medical College and Hospital, Sangli; and Bharati Vidyapeeth's Dental College and Hospital, Navi Mumbai are included under the ambit of Bharati Vidyapeeth (Deemed University), Pune with immediate effect subject to a review

after three years and subject to the following conditions :

- i) These two new centres shall not admit any student without obtaining prior approval from the Medical Council of India (MCI)/Dental Council (DCI) of India as the case may be;
- ii) Any advertisement / public notice issued by the Bharati Vidyapeeth in the interregnum period will specifically state that their inclusion in Bharati Vidyapeeth is "provisional and subject to approval by MCI / DCI"; and
- iii) It will adhere to the guidelines/instructions issued by UGC from time to time as applicable to the Deemed Universities.

SUNIL KUMAR

Jt. S